



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1384]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2007/कार्तिक 21, 1929

No. 1384]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2007/KARTIKA 21, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(ख) अनुसूची में,—

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

का.आ. 1905(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 528(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 9 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रस्तावना में,—

(i) "अपर कलक्टर-I, जयपुर, श्रीमाधोपुर" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अपर कलक्टर (प्रशासन), अजमेर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(i) "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "1. किशनगढ़" तालुक के सामने, स्तम्भ 5 में, प्रविष्टि "(1) तोलामाल" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) नयागांव ;

(3) सावत्सर ;

(4) किशनगढ़ ;

(5) मदनगंज ;"

(iii) "5. ब्यावर" तालुक के सामने, स्तम्भ 5 में प्रविष्टि "(12) गणेश/सन" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(13) नरसिंहपुरा ;

(14) भोजपुरा ;

(15) केसरपुरा (परसा) ;"

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी-II/11012/66/05-एलए]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल अधिसूचना का.आ. 528(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,

खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 9 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2007

S.O. 1905(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road, Transport and Highways), number S.O. 528(E), dated the 9th April, 2007, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th April, 2007 namely:—

In the said notification,—

(a) in the preamble,—

- (i) for the words and figure “Additional Collector-I, Jaipur, Shrimadhopur”, the words “Additional Collector (Admn.), Ajmer” shall be substituted;
- (ii) for the words and figure “National Highway No. 11”, the words and figures “National Highway No. 8” shall be substituted;

(b) in the Schedule.—

- (i) for the words and figures “National Highway No. 11”, the words and figures “National Highway No. 8” shall be substituted;
- (ii) against Taluk “1. Kishangarh”, in column 5, after the entry “(1) Tolamal”, the following entries shall be inserted, namely:—

“(2) Nayagaon;

(3) Sawatsar;

(4) Kishangarh;

(5) Madanganj;”

- (iii) against Taluk “5 Beawer”, in column 5, after the entry “(12) Ganesh/sun”, the following entries shall inserted namely:—

“(13) Narsinghpura;

(14) Bhojpura;

(15) Kesarpura (Parsa);”.

[F. No. NHAI/BOT-II/11012/66/05/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note.—The principal notification was published *vide* S.O. 528(E), dated the 9th April, 2007 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th April, 2007.